



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 971 राँची, मंगलवार,

26 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र०-11/2014 का०- 9148-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक 628 दिनांक- 15.11.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, विधानसभा आम निर्वाचन, 2019 के लिये सेक्टर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 166 पदाधिकारियों/सुरक्षित पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव